

सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने का निर्धारित प्रोफार्मा

प्रारूप 2 सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 3 व 6 (1) के अधिन अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

सेवा में,

जन सूचनाधिकारी - वित्त सचिव (जन सूचना अधिकारी)

कार्यालय का नाम:- वित्त मंत्रालय संसद भवन भारत सरकार नई दिल्ली

डाक का पता:- ग्राम-शमनगढ़ की मधुना जिला-कानपुर

1. आवेदक का पूरा नाम:-
2. पिता/पति का नाम:-
3. डाक का पूरा पता:-

4. ई-मेल पता यदि हो तो:- 5. :- दूरभाष अथवा मोबाइल 9621528662 नगढ़

6. मांगी गई सूचना का व्यौरा-(केवल 500 शब्दों में यदि आवश्यक हो तो पृथक पृष्ठ भी संचालन करें)

महोदय, - प्रार्थी राज प्रकाश तियाही के द्वारा दि-01-07-2016 को एवं दि-0-16-12-2016 को वित्त मंत्री संसद भवन को पत्र दिये गये थे उन पर क्या कार्य वाही सुनिश्चित की गयी प्रार्थी को आज तक कुछ मालूम नहीं है। कृपया जन सूचना अधिकारी के तहत की गयी कार्य वाही से अवगत कराने की कृपा करें।

TIME BOUND
MINISTRY OF FINANCE / वित्त मंत्रालय
DEPARTMENT OF REVENUE / राजस्व विभाग
FTS No. 969482 / 1201371 Cell
Date of Receipt 01 / 11 / 2018

9. क्या वांछित सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतन्त्रता के सम्बन्धित है? जीवन एवं स्वतन्त्रता सम्बन्धी हां/नहीं

द. जमा किये गये शुल्क का व्यौरा ख०. न०. 10.....अंको में (शब्दों में) दस रुपये

नगद रसीद/पोस्टल आर्डर/ डिमांड ड्रॉट सं०. 45f 730507

दिनांक. 25-10-2018 कार्यालय /डाकघर/बैंक का नाम नवाब हाज - कानपुर - नगल

क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है ?.....हां/नहीं

यदि हां तो बी०पी०एल० राशन कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न करे ।

90. संलग्नकों की सूची- 1. क्रम संख्या ८ के अनुसार नगद रसीद/पोस्टल आर्डर/ डिमांड ड्रॉट

- 2 दि०-01-07-2016 को कलेक्टर के कार्यालय (8) चूने में कापी
- 3 दि०-16-12-2016 को कलेक्टर के कार्यालय (11) चूने में कापी
- 4 दि०-06-12-2016 को कलेक्टर के कार्यालय (11) चूने में कापी

स्थान कानपुर

राम प्रकाश तिवारी
आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक 26-10-2018

पावती

.....निवासी.....

(9) के अधीन सूचना की मांग हेतु आवेदन पत्र जो क्रमांक.....

प्राप्त किया ।

दिनांक.....

राज्य लोक सूचना आयोग का
हस्ताक्षर और पूर्ण नाम

प्राधिकारिक मुद्रा